

8. बैंकिंग, पूंजी बाजार, मुद्रा बाजार, बीमा और म्यूचुअल फंड जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 1991 के दौरान वित्तीय क्षेत्र में शुरू किए गए प्रमुख सुधारों पर विस्तार से चर्चा करें। (18)

9. निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

(i) डेबिटिव्स

(ii) म्यूचुअल फंड

(iii) सेबी

(18)

[This question paper contains 8 printed pages.]

Your Roll No.....

Sr. No. of Question Paper : 878

I

Unique Paper Code : 2413090002

Name of the Paper : FINANCIAL MARKETS
AND INSTITUTIONS

Name of the Course : B.Com.

Semester : V – DSE

Duration : 3 Hours

Maximum Marks : 90

Instructions for Candidates

1. Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.
2. The Question paper contains **Nine** Questions and attempt any **five** questions.
3. Answers may be written either in English or Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

छात्रों के लिए निर्देश

1. इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए।

2. प्रश्न-पत्र में नौ (9) प्रश्न हैं और किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
3. इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।

1. (a) Give a brief description of Financial Markets in India. Explain the role of financial intermediaries.

(9)

(b) What is the concept of a financial system, and what are its key functions and components? How do these interlink with economic development?

(9)

2. (a) Discuss the role of various participants in the money market of India.

(9)

(b) Explain the different types of money market instruments. How do these instruments help in the management of short-term liquidity?

(9)

5. (क) भारतीय ऋण बाजार में जारी और कारोबार किए जाने वाले ऋण बाजार उपकरणों की व्याख्या करें।

(9)

(ख) जीवन बीमा और गैर-जीवन बीमा कंपनियों के बीच क्या अंतर है? भारत में जीवन और गैर-जीवन बीमा कंपनियों की संरचना कैसे की जाती है?

(9)

6. (क) बैंकों और एनबीएफसी के बीच प्रमुख अंतरों पर चर्चा करें।

(9)

(ख) पूंजी बाजार के विकास में म्यूचुअल फंड की क्या भूमिका है? म्यूचुअल फंड व्यक्तिगत निवेशकों और समग्र रूप से अर्थव्यवस्था की कैसे मदद करते हैं?

(9)

7. (क) एनएसई में विभिन्न प्रकार के स्टॉक इंडेक्स क्या हैं?

(9)

(ख) शेयरों में ऑनलाइन ट्रेडिंग के लाभों की व्याख्या करें। क्या इसने भारत में ट्रेडिंग की मात्रा में वृद्धि की है?

(9)

(ख) मुद्रा बाजार के विभिन्न प्रकार के साधनों की व्याख्या करें।
ये साधन अल्पकालिक तरलता के प्रबंधन में कैसे मदद करते हैं? (9)

3. (क) भारतीय कंपनियाँ जी.डी.आर. या ए.डी.आर. क्यों जारी करती हैं? (9)

(ख) पूंजी बाजार में इक्विटी जारी करने के विभिन्न तरीकों की व्याख्या करें। इक्विटी बाजार कॉर्पोरेट वित्तपोषण को कैसे सुगम बनाता है? (9)

4. (क) भारत में कार्यशील पूंजी वित्तपोषण में वाणिज्यिक बैंकों की भूमिका पर चर्चा करें। (9)

(ख) अनर्जक आस्तियाँ (एन.पी.ए.) क्या हैं, तथा वे वाणिज्यिक बैंकों के कामकाज को कैसे प्रभावित करती हैं? एन.पी.ए. के प्रबंधन के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? (9)

3. (a) Why do Indian companies go for GDR or ADR issues? (9)

(b) Explain the different methods of issuing equity in the capital market. How does the equity market facilitate corporate financing? (9)

4. (a) Discuss the role of commercial banks in working capital financing in India. (9)

(b) What are non-performing assets (NPAs), and how do they impact the functioning of commercial banks? What measures are taken to manage NPAs? (9)

5. (a) Explain the debt market instruments that issued and traded in Indian debt market. (9)

(b) What is the difference between life insurance and non-life insurance companies? How are life and non-life insurance companies structured in India? (9)

6. (a) Discuss major differences between banks and NBFCs. (9)

(b) What is the role of mutual funds in capital market development? How do mutual funds help individual investors and the economy as a whole? (9)

7. (a) What are the different types of stock indices at NSE? (9)

(b) Explain the advantages of Online trading in stocks. Has it increased the Volume of trading in India? (9)

8. Discuss in detail the major reforms which were introduced in the Financial sector during 1991 in the various sectors namely banking, capital market, money market, insurance and mutual funds. (18)

9. Write short notes on any two of the following :

(i) Derivatives

(ii) Mutual Fund

(iii) SEBI (18)

1. (क) भारत में वित्तीय बाजारों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। वित्तीय मध्यस्थों की भूमिका की व्याख्या करें। (9)

(ख) वित्तीय प्रणाली की अवधारणा क्या है, तथा इसके प्रमुख कार्य और घटक क्या हैं? ये आर्थिक विकास के साथ कैसे जुड़े हैं? (9)

2. (क) भारत के मुद्रा बाजार में विभिन्न प्रतिभागियों की भूमिका पर चर्चा करें। (9)